

Dated: October 30, 2025

Corporate Service Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal
Street,
Mumbai – 400001

Scrip Code: 534920
ISIN: INE899M01020

Subject: Newspaper Publication regarding proposed Rights Issue of the Fully Paid-up Equity Shares of Covidh Technologies Limited.

Dear Sir/Madam,

This is in continuation to our earlier letter dated October 03, 2025, October 09, 2025 and October 16, 2025, approving the offer and issue of equity shares of the Company by way of a rights issue to eligible shareholders of the Company as on the record date for an aggregate amount not exceeding Rs. 808.56 Lakhs, in accordance with the SEBI ICDR Regulations, as amended and other applicable laws including circulars issued by SEBI from time to time. ("**Issue**").

Please find enclosed extracts of the newspaper publication of the advertisement which was published on Thursday, October 30, 2025, in compliance with Regulation 84(1) of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirement (Regulations) 2018, as per details mentioned below:

1. Business Standard English- All Edition
2. Business Standard Hindi- All Edition
3. Mana Telangana Telugu- Hyderabad

You are requested to please take on record the above-mentioned information for your reference and further needful.


Thanking You,
Sincerely,


For COVIDH TECHNOLOGIES LIMITED

Digitally signed by
Deepakshi
Date: 2025.10.30
12:06:47 +05'30'

(DEEPAKSHI)

Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: A76335

sanofi						
SANOFI INDIA LIMITED						
Registered Office: Sanofi House, CTS. No. 117-B, L&T Business Park, Sakhi Vihar Road, Powai, Mumbai - 400 072.						
Corporate Identity Number: L24239MH1956PLC009794 • Tel No: + 91 (22) 2803 2000 • Fax No: + 91 (22) 2803 2939						
Website: www.sanofiindiatd.com • Email: igrc.sil@sanofi.com						
EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2025						
Particulars	₹ in Million					
	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Nine Months ended	Nine Months ended	Year ended
	30.09.2025 (Unaudited)	30.06.2025 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	31.12.2024 (Audited)
Total income from operations	4,803	4,150	5,263	14,345	15,089	20,297
Net Profit before Tax and Exceptional items	1,296	941	1,126	3,890	3,549	4,691
Net Profit before Tax after Exceptional items	1,023	941	1,126	3,617	3,092	4,314
Net Profit after Tax and Exceptional items	760	695	822	2,650	2,224	3,137
Total Comprehensive Income for the period	760	695	822	2,650	2,224	3,209
Equity Share Capital	230	230	230	230	230	230
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	8,376
Earnings Per Share (Face value ₹ 10) (in ₹)						
Basic (in ₹)	32.99	30.18	35.69	115.06	96.57	136.21
Diluted (in ₹)	32.99	30.18	35.69	115.06	96.57	136.21
Notes:						
1. The above results for the quarter and nine months ended September 30, 2025 have been prepared in accordance with recognition and measurement principles laid down in the applicable Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act 2013, read together with rule 3 of the companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 (as amended from time to time) and other accounting principles generally accepted in India, read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.						
2. The above Results have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on October 28, 2025 and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on October 29, 2025.						
3. The Board of Directors have declared an interim dividend of Rs. 75/- per share having face value of Rs. 10 each.						
4. The above results are an extract of the detailed format results for the quarter and nine months ended September 30, 2025, which are also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the company's website (www.sanofiindiatd.com). The same can also be accessed by scanning the QR code provided below:						
						
For and on behalf of the Board of Directors of Sanofi India Limited						
Sd/-						
Rachid Ayari						
Whole-time Director and CFO						
Place: Mumbai						
Date: October 29, 2025						
DIN: 10408699						

APAR			
Tomorrow's solutions today			
(CIN : L91110GJ1989PLC012802)			
Registered Office : 301, Panoramia Complex, R. C. Dutt Road, Vadodara - 390 007 (Gujarat), India.			
Tel. No. : (0265) 6178740, 2339906 E-mail : com.sec@apar.com URL : www.apar.com			
EXTRACT OF UN-AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2025			
Particulars	₹ in crore		
	Consolidated Results		
	Quarter ended	Half Year ended	Quarter ended
	30th Sept., 2025	30th Sept., 2025	30th Sept., 2024
	(Reviewed)	(Reviewed)	(Reviewed)
Total Income from operations	5,715.42	10,819.58	4,644.51
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	340.56	693.07	256.70
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	340.53	693.05	256.73
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	251.70	514.61	193.88
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	274.65	544.69	205.55
Equity Share Capital	40.17	40.17	40.17
Earnings Per Share (Face Value of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
Basic (in ₹)	62.66	128.11	48.27
Diluted (in ₹)	62.55	127.94	48.27
Notes :			
1) The said Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its Meeting held on 29th October, 2025.			
2) Additional information on Standalone financial results is as follows :			
Particulars	₹ in crore		
	Quarter ended	Half Year ended	Quarter ended
	30th Sept., 2025	30th Sept., 2025	30th Sept., 2024
	(Reviewed)	(Reviewed)	(Reviewed)
Total Income from Operations	5,462.93	10,344.00	4,315.58
Profit before tax	341.67	688.65	239.41
Profit for the period	253.87	511.66	177.78
Total Comprehensive Income (after tax)	269.55	533.64	188.64
3) The above is an extract of the detailed format of Statement of standalone and consolidated financial results filed with the Stock Exchanges pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Statement of standalone and consolidated financial results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com (Scrip Code 532259) and www.nseindia.com (Scrip Symbol - APARINDS) and on Company's website www.apar.com .			
4) The same can be accessed by scanning the QR Code provided below.			
			
For APAR Industries Limited			
Sd/-			
Kushal N. Desai			
Chairman & Managing Director			
DIN : 00008084			
Place : Mumbai			
Date : 29th October, 2025			



AURANGABAD SMART CITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (ASCDCL)



REQUEST FOR PROPOSAL

ASCDCL invites firms possessing relevant capabilities to respond to this RFP for following

Sr. No.	Title and Tender ID No	Bid Due Date	Bid Opening Date
01	CC rigid pavement work (2025_ASCDC_1235153_1)	05 Nov. 2025 5.00 p.m.	6 Nov. 2025 5.00 p.m.
02	Supply of soil (2025_ASCDC_1235066_1)		

The tender document can be downloaded from
<https://www.mahatenders.gov.in>

Sd/-
Chief Executive Officer
Aurangabad Smart City Development Corporation Limited

MANGALAM ENGINEERING PROJECTS LIMITED				
CIN: L74899DL1984PLC017356				
Regd. Office: 101C, Ground Floor, Kundan House, Harinagar Ashram, Mathura Road, New Delhi-110014, Phone (011)2634-0298/4347/1308				
E-mail: info@mangalamengineering.com, Website: www.mangalamengineering.com				
NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR POSTAL BALLOT				
NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of Sections 110 and 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules 22 and 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI-LODR Regulations") including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force, read with General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time ("MCA Circulars"), the Resolutions as set out in the Notice are proposed for approval of members of Mangalam Engineering Projects Limited ("the Company") through postal ballot by voting through electronics means ("remote e-Voting"). Communication of assent or dissent of Members would take place only through the remote e-Voting system.				
The Notice of the Postal Ballot will be sent electronically only to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. Members may note that the Notice of Postal Ballot will also be available on the Company's website at www.mangalamengineering.com , website of stock exchange i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited at www.mseil.in .				
Eligible members who have not yet registered/updated their e-mail addresses and contact details are requested to update their PAN, KYC, Nomination details etc. by submitting the relevant forms to the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) M/s Maheshwari Datamatics Private Limited, 23, R. N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata-700001, if the shares are held in physical form and with their Depository Participant ("DP"), if the shares are held in demat form. The relevant forms for submission to RTA can be downloaded from the website of the Company at www.mangalamengineering.com or from the website of the RTA at www.mdpl.in				
For Mangalam Engineering Projects Ltd. Sd/- Vithal Das Mall Company secretary FCS-3686				
Date : 29 th October, 2025				



COVIDH TECHNOLOGIES LIMITED

Covidh Technologies Limited (our "Company" or "the Issuer") was originally incorporated as "Aarya Consultants Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated January 27, 1993, granted by the Registrar of Companies, Andhra Pradesh, Hyderabad. Subsequently, the name of our Company was changed to "Fastrack Capital Limited" and a fresh certificate of incorporation consequent upon then change of name was issued on March 04, 1996, by the Registrar of Companies, Andhra Pradesh, Hyderabad. Further, the name of the company was changed to "Aptus Industries Limited" vide certificate of incorporation dated January 31, 2013, issued by the Registrar of Companies, Andhra Pradesh, Hyderabad. Thereafter, the name of our company got changed to Covidh Technologies Limited vide certificate of incorporation dated May 21, 2014, issued by the Registrar of Companies, Andhra Pradesh, Hyderabad. The Corporate Identification Number of our company is L72200TG1993PLC015306. For further details, please refer to the section titled "General Information" beginning on page 01 of this Letter of Offer.

Registered Office: Plot No. 797/A, B-2, Sai Krishna Building, Road No. 36, Jubilee Hills, Hyderabad, Telangana- 500033 | Corporate Office: Office No. 4 Kumar Prestige Point, 238 Shukrawar Path, Pune City, Maharashtra- 411002
Telephone: + (91) 9289433989 | Contact Person: Deepakshi, Company Secretary and Compliance Officer | Email: cscovidh@gmail.com | Website: www.covidhtechnologies.com | CIN: L72200TG1993PLC015306

PROMOTER OF OUR COMPANY: GANAPA NARSI REDDY

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COVIDH TECHNOLOGIES LIMITED (THE "COMPANY" OR "THE ISSUER") ONLY

ISSUE OF UP TO 80,85,550 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH, AT PAR, AT A PRICE OF ₹ 10 PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UP TO ₹ 808.56 LAKHS, ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 25 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 FULLY PAIDUP EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 75.

*Assuming full subscription. Subject to finalisation of the Basis of Allotment

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY		
ISSUE OPENS ON	LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION*	ISSUE CLOSING ON#
Monday, November 03, 2025	Tuesday, November 04, 2025	Monday, November 10, 2025

*Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date.
Our Board or a duly authorised committee thereof will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time, but not exceeding 30 (thirty) days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

ASBA *

Simple, Safe, Smart way of Application.
-Make use of it.!!!

* Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check the section on ASBA below.

FACILITIES OF APPLICATION IN THE ISSUE

In accordance with Regulation 76 of the SEBI (ICDR) Regulations, the SEBI Master Circular and the ASBA Circulars, all Shareholders desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Shareholders should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA.

For details, see "Making of an Application through the ASBA process" on Page 78 of the Letter of Offer.

Please note that subject to SCBS, complying with the requirement of SEBI Circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/1/2013 dated January 02, 2013, it is clarified that for making Applications by SCBSs on their own account using ASBA facility, each such SCBS should have a separate account in its own name with any other SEBI-registered SCBS(s). Such account shall be used solely for the purpose of making an Application in this issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an application.

CREDIT OF RIGHT ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS: In accordance with Regulation 77A of the SEBI (ICDR) Regulations, read with SEBI ICDR Master Circular, the credit of Right Entitlements and Allotment of Right Equity Shares shall be made in the dematerialised form only.

PLEASE NOTE THAT CREDIT OF RIGHT ENTITLEMENTS IN THE DEMAT ACCOUNT DOES NOT, PER SE, ENTITLE THE INVESTORS TO THE RIGHT EQUITY SHARES AND THE INVESTORS HAVE TO SUBMIT AN APPLICATION FOR THE RIGHT EQUITY SHARES ON OR BEFORE THE ISSUE CLOSING DATE BY MAKING FULL PAYMENT TOWARDS SHARES APPLIED. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE "TERMS OF THE ISSUE-PROCESS OF MAKING AN APPLICATION IN THE ISSUE" ON PAGE 77 OF THE LETTER OF OFFER.

PLEASE NOTE THAT THE RIGHT ENTITLEMENTS, IF NO APPLICATION IS MADE BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF RIGHTS ENTITLEMENTS ON OR BEFORE THE ISSUE CLOSING DATE, SUCH RIGHTS ENTITLEMENTS SHALL LAPSE AND SHALL BE EXTINGUISHED AFTER THE ISSUE CLOSING DATE

Please note that our Company has opened a separate demat suspense escrow account (namely, "COVIDH TECHNOLOGIES LIMITED RIGHTS ISSUE SUSPENSE ESCROW DEMAT ACCOUNT" (Demat Suspense Account)) and has credited the Right Entitlements on the basis of the Equity Shares (as per the Rights Entitlements) which are held in physical form as on Record Date, or (b) which are held in the Account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) authority, or (c) of the Eligible Equity Shareholders whose demat accounts are frozen or where the Equity Shares are lying in the unclaimed/suspense escrow account/ demat suspense account/ demat suspense account (including those pursuant to Regulation 39 of the SEBI (LODR) Regulations or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date or where the Equity Shares have been kept in abeyance or where instructions have been issued for stopping issue or transfer or where the letter of confirmation lying in the escrow account; or (d) where credit of the Right Entitlements have returned/reversed/failed for any reasons; (e) where ownership is currently under dispute, including any court or regulatory proceedings or where any legal notices have been issued, if any or (f) such other cases where our Company is unable to credit Right Entitlements for any other reasons. Please note that our Company has credited the Right Entitlements to the Demat Suspense Account on the basis of information available with our Company and to serve the interest of the Eligible Equity Shareholders to provide them a reasonable opportunity to participate in the issue. The credit of the Right Entitlements to the Demat Suspense Account by our Company does not create any right in favour of the relevant Eligible Equity Shareholder for transfer of the Right Entitlement to their demat account or to receive any Equity Shares in the issue.

With respect to the Right Entitlements credited to the Demat Suspense Account, the Eligible Equity Shareholders are requested to provide relevant details/documents as acceptable to our Company or the Registrar (such as applicable regulatory approvals, self-attested PAN and client master sheet of demat account, details/records confirming the legal and beneficial ownership of their respective Equity Shares, etc.) no later than two clear Working Days prior to the Issue Closing Date i.e., by Thursday, November 06, 2025, to enable credit of their Right Entitlements by way of transfer from the Demat Suspense Account to their Demat Account at least one day before the Issue Closing Date, to enable such Eligible Equity Shareholders to make an application in this issue, and the communication shall serve as an Intimation to such Eligible Equity Shareholders in this regard. Such Eligible Equity Shareholders are also requested to ensure that their demat account, details of which have been provided to our Company or the Registrar account, is active to facilitate the aforementioned transfer. In the event that the Eligible Equity Shareholders are not able to provide the relevant details to our Company or the Registrar by the end of the two clear Working Days prior to the Issue Closing Date, Right Entitlements credited to the Demat Suspense Account shall lapse and extinguish in due course and such Eligible Equity Shareholders shall not have any claim against our Company and our Company shall not be liable to any such Eligible Equity Shareholders in any form or manner.

COMPLETION OF DISPATCH OF ISSUE MATERIAL

The dispatch of the Application Form, Letter of Offer dated October 16, 2025, and Right Entitlement Letter (**"Issue Material"**) has been completed on Wednesday, October 29, 2025 for dispatch through email and for dispatch through Speed Post (Non-Email), as confirmed by the RTA. In case of Eligible Equity Shareholders who have provided their valid Email address to our Company, the Issue Material has been sent to their e-mail address and in case where Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Issue Material as applicable has been physically dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them.

MAKING OF AN APPLICATION THROUGH THE ASBA PROCESS:

An Investor wishing to participate in the Issue through the ASBA facility is required to have an ASBA enabled bank account with SCBSs prior to making the application. Investors desiring to make an application in the Issue through the ASBA process, may submit the Application Form in physical mode to the Designated Branches of the SCBS or online/electronic application through the Website of the SCBSs (if made available by such SCBS) for authorizing such SCBS to block such Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts. Investors should ensure that they have correctly submitted the Application Form and have provided an authorization to the SCBS, via the electronic mode or blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application. For the list of Banks which have been notified by the SEBI to act SCBSs for the ASBA process, please refer to <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedDP=yes&intId=34>.

MAKING OF AN APPLICATION BY ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS, ON PLAIN PAPER UNDER ASBA PROCESS

An Eligible Equity Shareholder in India who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper in terms of Regulation 78 of SEBI (ICDR) Regulations in case of non-accept of the Application Form as detailed above. In such cases of non-accept of the Application Form through e-mail or physical delivery (where applicable) and the Eligible Equity Shareholder not being in a position to obtain it from any other source may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper with the same details as per the Application Form that is available on the website of the Company, Registrar or Stock Exchange. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCBS for authorizing such SCBS to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCBS. Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address.

Please note that in terms of Regulation 78 of SEBI (ICDR) Regulations, the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilise the Application Form for any purpose, including renunciation even if it is received subsequently.

The Application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholders including the joint holders, in the same order and as per the specimen recorder with his/her bank, must reach the office of the Designated branch of the SCBS before the Issue Closing Date and should contain the following particulars: 1. Name of our Company, being Covidh Technologies Limited 2. Name and address of the Eligible Equity Shareholder, including joint holders (in the same order as per the specimen recorded with our Company or the Depository) 3. Folio Number (in case of Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on the Record Date) DP and Client ID; 4. Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the Officials appointed by the Courts, PAN of the Eligible Equity Shareholders and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Equity Shares applied for pursuant to this Issue, 5. Number of Equity Shares held as on Record Date; 6. Allotment option - only dematerialised form; 7. Number of Right Equity Shares entitled to 8. Total number of Right Equity Shares applied for 9. Number of additional Right Equity Shares applied for, if any (applicable only if entire Right Entitlements have been applied for); 10. Total number of Right Equity Shares applied for; 11. Total amount paid at the rate Rs.10/- per Right Equity Share; 12. Details of the ASBA Account such as the SCBS account number, name, address and branch of the relevant SCBS; 13. In case of non-resident Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO account, such as the account number, name, address and the branch of the SCBS with which the account is maintained; 14. Authorisation to the Designated Branch of the SCBS to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account; 15. Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCBS); and 16. All such Eligible Equity Shareholders shall be deemed to have made the representations, warranties and agreements set forth in "Restrictions on Purchases and Resales - Eligible Investors" on Page 106 of Letter of Offer, and shall include the following:

I/We understand that neither the Rights Entitlements nor the Rights Equity Shares have been, or will be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"). Or any United States securities laws, and may not be offered, sold, resold, or otherwise transferred within the United States (including its territories and possessions thereof, any State of the United States and the District of Columbia) (the "United States"), except pursuant to an exemption from or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any State of the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act ("Regulation S") to existing shareholders and located in jurisdictions where such offer and sale of the Right Equity Shares is permitted under laws of such jurisdictions and in compliance with the applicable laws of such jurisdictions. I/We understands that the issue is not under and no circumstances is to be construed as an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States, or as a solicitation therein of an offer to buy any of be said Rights Equity Shares or Rights Entitlements in the United States. I/We confirm that I/We (a) am/are not in the United States and am/are eligible to subscribe the Rights Equity Shares under applicable securities laws, (b) am/are complying with laws of jurisdictions applicable to such persons in connection with the issue, and (c) understand that neither the Company, nor the Registrar, the Issue, nor any other person acting on behalf of the Company will accept subscriptions from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who the Company, the Registrar to the Issue or, any other person acting or acting on behalf of the Company have reason to believe is in the United States or is outside of India and ineligible to participate in this Issue under the securities laws of their jurisdiction. I/We will not offer, sell or otherwise transfer any of the Rights Equity Shares which may be acquired by us in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or sale is not authorised or to any person to whom it is unlawful to make such offer, sale or invitation.

I/We satisfy, and each account for which I/We are acting satisfies (a) all suitability standards for investors in investments of the type subscribed for herein, imposed by the jurisdiction of my/ our residence, and (b) is eligible to subscribe and is subscribing for the Rights Equity Shares and Rights Entitlements in compliance with applicable securities and other laws of our jurisdiction or residence.

I/We acknowledge that the Company, its affiliates and other will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representation and agreements."

In cases where Multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account, including cases where an Investor submits Application Forms along with a plain paper Application, such Application shall be liable to be rejected.

Investors are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an Application being rejected, with our Company and the Registrar and not having any liability to the Investor. The plain paper Application format will be available on the website of the Registrar (i.e. www.skylinert.com) and the Stock Exchange, i.e. www.bseindia.com).

Our Company and the Registrar shall not be responsible if the Applications are not uploaded by the SCBS or funds are not blocked in the investors' ASBA Accounts on or before the Issue Closing Date.



Skyline Financial Services Private Limited
D-153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020
Tel: 011-40450193-197 | E-mail: ipo@skylinert.com | Website: www.skylinert.com
Contact Person: Mr Anuj Rana | SEBI Reg No: INF000003241

All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy of the SCBS, giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), Email address of the sole/first holder, folio number, demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCBS where the Application Forms or the plain paper application, as the case may be was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip.

For Covidh Technologies Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Deepakshi
Company Secretary & Compliance Officer

Date: October 30, 2025
Place: Hyderabad

डीप-टेक स्टार्टअप को सहारा देगी सरकार

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि डीप-टेक स्टार्टअप के लिए दिया जाएगा पूरा स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स

उद्दिशा श्रीवास्तव
नई दिल्ली, 29 अक्टूबर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि सरकार ने स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स योजना (10,000 करोड़ रुपये) के अगले पूरे कोष को विशेष रूप से डीप-टेक स्टार्टअप को आवंटित करने की योजना बनाई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि देश के उद्यमियों के पास ही स्वाभिव्का का बड़ा हिस्सा रहे और शुरुआती चरण में विदेशी निवेशकों को बड़ी इक्विटी हिस्सेदारी बेचने से बच सकें।

गोयल ने टाईफ़ान दिल्ली-एनसीआर

2025 में अपने मुख्य भाषण में कहा, 'सरकार अपनी तरफ से स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स को लगभग पूरी तरह डीप-टेक निवेश खास कर शुरुआती निवेश के चरण में लगाने की योजना बना रही है। ऐसा इसलिए है ताकि हमारे स्टार्टअप तंत्र से जुड़े उद्यमियों को बड़े पूंजीपतियों या विदेशी फंडों को बहुत शुरुआती चरण में ही अपनी इक्विटी का बड़ा हिस्सा न बेचना पड़े। इस फंड से उन्हें भविष्य के राउंड के लिए और वैचर की परिपक्वता तक अपने स्वाभिव्का का बड़ा हिस्सा अपने पास बनाए रखने में मदद मिल सकेगी।' गोयल ने कहा कि भारत को दीर्घकालिक विकास और संप्रभुता की



रक्षा के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करनी चाहिए तथा लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना चाहिए। साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक आपूर्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए और कुछ देशों पर अत्यधिक निर्भरता भी कम करनी चाहिए। प्रगति

का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री कहा कि देश प्रौद्योगिकी और नवाचार में अग्रणी बनने तथा दुनिया का बैंक ऑफिस बनने से बचने की दिशा में बड़े कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा, 'भारत एक राष्ट्र के रूप में दुनिया के लिए सिर्फ बैंक ऑफिस या

फोन पर कॉलर आईडी मार्च तक हर सर्कल में

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 29 अक्टूबर

दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को मार्च 2026 तक सभी सर्कल में सीएनएपी (कॉलर नेम प्रेजेंटेशन) सेवा शुरू करने के लिए कहा है। यह सेवा स्मार्टफोन पर कॉल करने वाले की पहचान बताएगी। जानकारी अधिकारियों ने बताया कि पहले सरकार ने साल के आखिर तक यानी दिसंबर इस सेवा को शुरू करने का आंतरिक लक्ष्य रखा था। लेकिन आधिकारिक तौर पर दूरसंचार कंपनियों को मार्च 2026 के अंत तक सेवा शुरू करने के लिए कहा गया था।

वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो सहित कंपनियों अभी उत्तर के कुछ सर्कल में पायलट परियोजनाओं पर काम कर रही हैं। जल्द ही इसका लाइव परीक्षण हो सकता है। दूरसंचार कंपनियों को एक-दूसरे की सेवाओं पर इंटर-ऑपरेबिलिटी परीक्षण करने होंगे ताकि एक नेटवर्क से आने वाली कॉल दूसरे के नेटवर्क पर कॉलर की सही पहचान दिखाए। एक अधिकारी ने कहा, 'अगर ये सभी परीक्षण कामयाब रहे तो हम व्यापक स्तर पर इस सेवा को लागू करेंगे।'

सीएनएपी या सीनैप डिफॉल्ट सेवा होगी लेकिन उपयोगकर्ताओं के पास इससे बाहर निकलने का भी विकल्प होगा। दूरसंचार कंपनियों को ये निर्देश भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के दूरसंचार विभाग के साथ सेवा को लागू करने पर सहमति बनने के बाद आए हैं। इसमें मुख्य मसला यह था कि इस सेवा को ग्राहकों की सहमति वाले विकल्प के बजाय ऑट आउट यानी इसे नहीं



चुनने के विकल्प के साथ दिया जाना चाहिए। इस साल की शुरुआत में ट्राई ने स्पैम, परेशान करने वाली कॉलों को रोकने और धोखाधड़ी से बचाव के तरीके के रूप में इसका प्रस्ताव किया था। वर्तमान में इनकमिंग कॉल के लिए डिफॉल्ट रूप से केवल नंबर प्रदर्शित किए जाते हैं। इसमें अनिवार्य रूप से किसी का नाम दिखाई नहीं देता है। कॉलर की पहचान के लिए उपयोगकर्ता अलग से टू कॉलर जैसे ऐप का उपयोग करते हैं।

दूरसंचार कंपनियों ने नंबर व्यवसाय या परिवारिक मोबाइल कनेक्शन से संबंधित नंबर होने की स्थिति में इस सेवा को लेकर अपनी कुछ चिंताएं व्यक्त की थीं। इसके अलावा, यह सुविधा केवल 5जी और 4जी वाले मोबाइल फोन पर ही दी जा सकती है। पुराने सर्किट-स्विच नेटवर्क मुख्य रूप से 2जी/3जी फोन पर यह सेवा तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन करने के बाद ही दी जा सकेगी। दूरसंचार लाइसेंस की शर्तों में संशोधन किया जाएगा ताकि अधिसूचित कटऑफ तिथि के बाद देश में बेचे जाने वाले सभी नए फोन में सीएनएपी या सीनैप सेवा हो। यह काम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा।

द्विपक्षीय उड़ान अधिकारों पर भारत की आलोचना गलत : एल्बर्स

दीपक पटेल
नई दिल्ली, 29 अक्टूबर

इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने बुधवार को कहा कि कुछ एयरलाइनों भारत की ऐसी छवि पेश कर रही हैं कि वह किसी को भी अधिक द्विपक्षीय उड़ान अधिकार नहीं दे रहा है, जो एकदम गलत है। उन्होंने कहा कि भारत केवल मांग और दो-तरफा उपयोग के आधार पर

उड़ानें आवंटित करता रहा है।

उनकी यह टिप्पणी अमीरात के अध्यक्ष टिम क्लार्क की इस आलोचना के कुछ महीने बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत दुबई को अतिरिक्त द्विपक्षीय अधिकार देने पर प्रतिबंध वाला रवैया अपना रहा है। क्लार्क ने उस समय कहा था कि विदेशी कंपनियों की उड़ानें सीमित करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि विमानन से देश




की अर्थव्यवस्था की संपदा में कई गुना बढ़ोतरी होती है। भारत अभी तक यूई

और कतर के लिए द्विपक्षीय उड़ान अधिकार बढ़ाने का अनिच्छुक रहा है। दुबई और दोहा जैसे पश्चिम एशिया के हब मुख्य रूप से उत्तर अमेरिका और यूरोप जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए ट्रांजिट प्वाइंट का काम करते हैं। साथ ही, भारतीय विमानन कंपनियां लगातार चौड़े आकार वाले विमानों को अपने बेड़े में शामिल कर रही हैं। इससे वे बिना स्के लंबी दूरी की उड़ानों का संचालन कर पा

रही हैं। एविएशन इंडिया समिट 2025 में पैनल परिचर्चा के दौरान एल्बर्स ने स्वीकार किया कि ग्रेट एंड व्हिटीनी इंजन की समस्या के कारण इंडिगो के लगभग 40 विमान वर्तमान में जमीन पर खड़े हैं। यह स्थिति निराश करने वाली तो है, लेकिन इस बारे में लगातार शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। इसके बजाय एयरलाइन समस्या का समाधान करने की दिशा में प्रयास करेंगी।

This advertisement is for information purpose only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell the securities. This is not an announcement for the offer document.



COVIDH TECHNOLOGIES LIMITED

Covidh Technologies Limited (our "Company" or the "Issuer") was originally incorporated as "Aarya Consultants Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated January 27, 1993, granted by the Registrar of Companies, Andhra Pradesh, Hyderabad. Subsequently, the name of our Company was changed to "Fastrak Capital Limited" and a fresh certificate of incorporation consequent upon then change of name was issued on March 04, 1996, by the Registrar of Companies, Andhra Pradesh, Hyderabad. Further, the name of the company was changed to "Aptus Industries Limited" vide certificate of incorporation dated January 31, 2012, issued by the Registrar of Companies, Andhra Pradesh, Hyderabad. Thereafter, the name of our company got changed to Covidh Technologies Limited vide certificate of incorporation dated May 21, 2014, issued by the Registrar of Companies, Andhra Pradesh, Hyderabad. The Corporate Identification Number of our company is L72200TG1993PLC015306. For further details, please refer to the section titled "General Information" beginning on page 01 of this Letter of Offer.

Registered Office: Plot No. 797/A, B-2, Sai Krishna Building, Road No. 36, Jubilee Hills, Hyderabad, Telangana- 500033 | **Corporate Office:** Office No. 4 Kumar Prestige Point, 238 Shukravar Peth, Pune City, Maharashtra- 411002
Telephone: + (91) 9289433989 | **Contact Person:** Deepakshi, Company Secretary and Compliance Officer | **Email:** cscovidh@gmail.com | **Website:** www.covidhtechnologies.com | **CIN:** L72200TG1993PLC015306

PROMOTER OF OUR COMPANY: GANAPPA NARSI REDDY

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COVIDH TECHNOLOGIES LIMITED (THE "COMPANY" OR "THE ISSUER") ONLY
ISSUE OF UP TO 80,85,550 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH, AT PAR, AT A PRICE OF ₹ 10 PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UP TO ₹ 808.56 LAKHS, ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 25 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 FULLY PAIDUP EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 75.
*Assuming full subscription. Subject to finalisation of the Basis of Allotment

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY		
ISSUE OPENS ON	LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION*	ISSUE CLOSSES ON#
Monday, November 03, 2025	Tuesday, November 04, 2025	Monday, November 10, 2025

*Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date.
Our Board or a duly authorised committee thereof will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time, but not exceeding 30 (thirty) days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

ASBA *	Simple, Safe, Smart way of Application. -Make use of it.!!!	* Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check the section on ASBA below.
---------------	--	---

FACILITIES OF APPLICATION IN THE ISSUE

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Master Circular and the ASBA Circulars, all Shareholders desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Shareholders should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA.

For details, see "Making of an Application through the ASBA process" on Page 78 of the Letter of Offer.

Please note that subject to SCSBs, complying with the requirement of SEBI Circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/1/2013 dated January 02, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, each such SCSB should have a separate account in its own name with any other SEBI-registered SCSB(s). Such account shall be used solely for the purpose of making an Application in this issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an application.

CREDIT OF RIGHT ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS: In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations, read with SEBI ICDR Master Circular, the credit of Right Entitlements and Allotment of Right Equity Shares shall be made in the dematerialised form only.

PLEASE NOTE THAT CREDIT OF RIGHT ENTITLEMENTS IN THE DEMAT ACCOUNT DOES NOT, PER SE, ENTITLE THE INVESTORS TO THE RIGHT EQUITY SHARES AND THE INVESTORS HAVE TO SUBMIT AN APPLICATION TO THE REGISTRAR BEFORE THE ISSUE CLOSING DATE BY MAKING THE FULL PAYMENT TOWARDS SHARES APPLIED. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE "TERMS OF THE ISSUE-PROCESS OF MAKING AN APPLICATION IN THE ISSUE" ON PAGE 77 OF THE LETTER OF OFFER.

PLEASE NOTE THAT THE RIGHT ENTITLEMENTS, IF NO APPLICATION IS MADE BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF RIGHTS ENTITLEMENTS ON OR BEFORE THE ISSUE CLOSING DATE, SUCH RIGHTS ENTITLEMENTS SHALL LAPSE AND SHALL BE EXTINGUISHED AFTER THE ISSUE CLOSING DATE.

Please note that our Company has opened a separate demat suspense escrow Account (namely, "COVIDH TECHNOLOGIES LIMITED RIGHTS ISSUE SUSPENSE ESCROW DEMAT ACCOUNT" ("Demat Suspense Account") and has credited the Right Entitlements on the basis of the Equity Shares (a) held by Eligible Equity Shareholders which are held in physical form as on Record Date, or (b) which are held in the Account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) authority; or (c) of the Eligible Equity Shareholders whose demat accounts are frozen or where the Equity Shares are lying in the unclaimed/suspense escrow account/ demat suspense account/ demat suspense account (including those pursuant to Regulation 39 of the SEBI (LODR) Regulations or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date or where the Equity Shares have been kept in abeyance or where instructions have been issued for stopping issue or transfer or where the letter of confirmation lying in the escrow account; or (d) where credit of the Right Entitlements have returned/reversed/failed for any reasons; (e) where ownership is currently under dispute, including any court or regulatory proceedings or where any legal notices have been issued, if any or (f) such other cases where our Company is unable to credit Right Entitlements for any other reasons. Please note that our Company has credited the Right Entitlements to the Demat Suspense Account on the basis of information available with our Company and to serve the interest of the Eligible Equity Shareholders to provide them a reasonable opportunity to participate in the Issue. The credit of the Right Entitlements to the Demat Suspense Account by our Company does not create any right in favour of the relevant Eligible Equity Shareholder for transfer of the Right Entitlement to their demat account or to receive any Equity Shares in the Issue.

With respect to the Right Entitlements credited to the Demat Suspense Account, the Eligible Equity Shareholders are requested to provide relevant details/documents as acceptable to our Company or the Registrar (such as applicable regulatory approvals, self-attested PAN and client master sheet of demat account, details/records confirming the legal and beneficial ownership of their respective Equity Shares, etc.) no later than two clear Working Days prior to the Issue Closing Date i.e., by Thursday, November 06, 2025, to enable credit of their Right Entitlements by way of transfer from the Demat Suspense Account to their Demat Account at least one day before the Issue Closing Date, to enable such Eligible Equity Shareholders to make an application in this Issue, and the communication shall serve as an Intimation to such Eligible Equity Shareholders in this regard. Such Eligible Equity Shareholders are also requested to ensure that their demat account, details of which have been provided to our Company or the Registrar account, is active to facilitate the aforementioned transfer. In the event that the Eligible Equity Shareholders are not able to provide the relevant details to our Company or the Registrar by the end of the two clear Working Days prior to the Issue Closing Date, Right Entitlements credited to the Demat Suspense Account shall lapse and extinguish in due course and such Eligible Equity Shareholders shall not have any claim against our Company and our Company shall not be liable to any such Eligible Equity Shareholders in any form or manner.

COMPLETION OF DISPATCH OF ISSUE MATERIAL

The dispatch of the Application Form, Letter of Offer dated October 16, 2025, and Right Entitlement Letter ('Issue Material') has been completed on Wednesday, October 29, 2025 for dispatch through email and for dispatch through Speed Post (Non-Email), as confirmed by the RTA. In case of Eligible Equity Shareholders who have provided their valid Email address to our Company, the Issue Material has been sent to their e-mail address and in case where Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Issue Material as applicable has been physically dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them.

MAKING OF AN APPLICATION THROUGH THE ASBA PROCESS:

An Investor wishing to participate in the Issue through the ASBA facility is required to have an ASBA enabled bank account with SCSBs prior to making the application. Investors desiring to make an application in the Issue through the ASBA process, may submit the Application Form in physical mode to the Designated Branches of the SCSB or online/electronic application through the Website of the SCSBs (If made available by such SCSB) for authorizing such SCSB to block such Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts. Investors should ensure that they have correctly submitted the Application Form and have provided an authorization to the SCSB, via the electronic mode or blocking funds in the ASBA Account equivalent Application Money in the ASBA Account. 15. Signature of the Eligible Equity Shareholder, at the time of submission of the Application. For the list of Banks which have been notified by the SEBI to act SCSBs for the ASBA process, please refer to <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFP=yes&intmlid=34>.

MAKING OF AN APPLICATION BY ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS, ON PLAIN PAPER UNDER ASBA PROCESS

An Eligible Equity Shareholder in India who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper in terms of Regulation 78 of SEBI ICDR Regulations in case of non-receipt of the Application Form as detailed above. In such cases of non-receipt of the Application Form through e-mail or physical delivery (where applicable) and the Eligible Equity Shareholder not being in a position to obtain it from any other source may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper with the same details as per the Application Form that is available on the website of the Company, Registrar or Stock Exchange. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address.

Please note that in terms of Regulation 78 of SEBI ICDR Regulations, the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilise the Application Form for any purpose, including renunciation even if it is received subsequently.

The Application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholders including the joint holders, in the same order and as per the specimen recorder with his/her bank, must reach the office of the Designated branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars: 1. Name of our Company, being Covidh Technologies Limited 2. Name and address of the Eligible Equity Shareholder, including joint holders (in the same order as per the specimen recorded with our Company or the Depository) 3. Folio Number (in case of Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on the Record Date) 4. Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the Officials appointed by the Courts, PAN of the Eligible Equity Shareholders and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Equity Shares applied for pursuant to this Issue. 5. Number of Equity Shares held as on Record Date. 6. Allotment option - only dematerialised form. 7. Number of Right Equity Shares entitled to 8. Total number of Right Equity Shares applied for 9. Number of additional Right Equity Shares applied for, if any (applicable only if entire Right Entitlements have been applied for); 10. Total number of Right Equity Shares applied for; 11. Total amount paid at the rate Rs.10/- per Right Equity Share; 12. Details of the ASBA Account such as the SCSB account number, name, address and branch of the relevant SCSB; 13. In case of non-resident Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO account, such as the account number, name, address and the branch of the SCSB with which the account is maintained; 14. Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account; 15. Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB); and 16. All such Eligible Equity Shareholders shall be deemed to have made the representations, warranties and agreements set forth in "Restrictions on Purchases and Resales - Eligible Investors" on Page 106 of Letter of Offer, and shall include the following:

I/We understand that neither the Rights Entitlements nor the Rights Equity Shares have been, or will be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"). Or any United States securities laws, and may not be offered, sold, resold, or otherwise transferred within the United States (including its territories and possessions thereof, any State of the United States and the District of Columbia) (the "United States"), except pursuant to an exemption from or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any State of the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act ("Regulation S") to existing shareholders and located in jurisdictions where such offer and sale of the Right Equity Shares is permitted under laws of such jurisdictions and in compliance with the applicable laws of such jurisdictions. I/We understands that the issue is not and under no circumstances is to be construed as an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States, or as a solicitation therein of an offer to buy any of be said Rights Equity Shares or Rights Entitlements in the United States. I/we confirm that I/We (a) am/are not in the United States and am/are eligible to subscribe the Rights Equity Shares under applicable securities laws, (b) am/are complying with laws of jurisdictions applicable to such person in connection with the issue, and (c) understand that neither the Company, nor the Registrar to the Issue, nor any other person acting on behalf of the Company will accept subscriptions from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who the Company, the Registrar to the Issue or, any other person acting or acting on behalf of the Company have reason to believe is in the United States or is outside of India and ineligible to participate in this Issue under the securities laws of their jurisdiction. I/We will not offer, sell or otherwise transfer any of the Rights Equity Shares which may be acquired by us in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or sale is not authorised or to any person to whom it is unlawful to make such offer, sale or invitation.

I/We satisfy, and each account for which I/we are acting satisfies (a) all suitability standards for investors in investments of the type subscribed for herein, imposed by the jurisdiction of my/ our residence, and (b) is eligible to subscribe and is subscribing for the Rights Equity Shares and Rights Entitlements in compliance with applicable securities and other laws of our jurisdiction of residence.

I/We acknowledge that the Company, its affiliates and other will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representation and agreements. *

In cases where Multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account, including cases where an Investor submits Application Forms along with a plain paper Application, such Application shall be liable to be rejected.

Investors are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an Application being rejected, with our Company and the Registrar and not having any liability to the Investor. The plain paper Application format will be available on the website of the Registrar (i.e. www.skylinertta.com) and the Stock Exchange, i.e. www.bseindia.com).

Our Company and the Registrar shall not be responsible if the Applications are not uploaded by the SCSB or funds are not blocked in the investors' ASBA Accounts on or before the Issue Closing Date.

If the shareholder makes an application using the Application Form as well as plain paper, both the applications shall be liable to be rejected at the option of the Issuer.

OVERSEAS SHAREHOLDERS: The distribution of Issue Materials and issue of Rights Entitlements, as well as Rights Equity Shares to persons in certain jurisdictions outside India, may be restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Persons into whose possession the Draft Letter of Offer, Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter or Application Form may come or who receive Rights Entitlement and propose to renounce or apply for Rights Equity Shares in the issue are required to inform themselves about and observe such restrictions. For more details, See "Restrictions on Purchases and Resales" beginning on page 106 of the Letter of Offer. Our Company is undertaking this Issue on a rights basis to the Eligible Equity Shareholders and has dispatched the Application Form, the Rights Entitlement Letter, and other Issue material only to the email addresses of Eligible Equity Shareholders who have provided an Indian address to our Company. In case the Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address, the Issue material is sent only to their valid e-mail address and in case the Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Issue Material is dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them. Investors can also access the Letter of Offer and the Application Form from the websites of the Registrar to the Issue, our Company, and the BSE.

NO OFFER IN THE UNITED STATES: The Rights Entitlements and the Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, or any U.S. State Securities Laws and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States, except in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. State Securities laws. Accordingly, the Equity Shares and the Rights Entitlements referred to in the Letter of Offer are being offered and sold only outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation S to existing shareholders located in jurisdictions where such offer and sale of the Equity Shares and/or rights entitlements is permitted under laws of such jurisdictions and in compliance with the applicable laws of such jurisdictions, the offering to which the Letter Of Offer relates is not and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy or transfer any of the said securities.

LAST DATE FOR APPLICATION: The last date for submission of the duly filled Application Form or a plain paper Application is Monday, November 10, 2025, i.e., Issue Closing Date. Our Board or any committee thereof may extend the said date for such period as, may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).

If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB, on or before the Issue Closing Date or such date as maybe extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Equity Shares hereby offered, as set out in the section entitled "Terms of the Issue-Basis of Allotment" on page 96 of the Letter of Offer. Please note that on the Issue Closing Date, Applications through ASBA process will be uploaded until 5:00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchange. Please ensure that the Application Form and necessary details are filled in. In place of the Application number, Investors can mention the reference number of the e-mail received from the Registrar informing about their Rights Entitlement or the last eight digits of the demat account. Alternatively, SCSBs may mention their internal reference number in place of the application number.

SPECIFIC INVESTORS: Pursuant to Regulations 62(3), 77B(1)(a), 84(1)(f)(i) and 86(1)(b) of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("SEBI ICDR Regulations"), and in continuation of the disclosures provided under the section titled "Renunciation to the Specific Investor" on page 24 of the Letter of Offer dated October 16, 2025, the details of the specific investors are set out below:

Sr. No.	Name of Specific Investor	No. of Shares
1	Pratap Deshmukh	5,50,000
2	Launik Deshmukh	2,00,000
3	Sharmila Deshmukh	2,50,000
4	Shubhangi Garad	8,00,000
5	Sumeet Garad	1,00,000
6	Ritu Garad	1,00,000
7	Dhairiyasheel Yadav	11,15,000
8	Nandkumar Kadam	11,15,000
9	Archana Lonkar	7,00,000

The Promoter of the Company, Mr. Ganappa Narasi Reddy, shall renounce his Rights Entitlement in favour of the above specific investors in accordance with the applicable provisions of the SEBI ICDR Regulations.

The aforesaid renunciation is subject to the specific investors making an application in the Rights Issue in accordance with Regulation 77B(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, on the first day of Issue Opening before 11:00 A.M., and such applications shall not be permitted to be withdrawn.

LISTING: The existing Equity Shares of our Company are listed on BSE Limited ("BSE"). Our Company has received "in-principle" approval from BSE for listing the Rights Equity Shares through its letter dated October 14, 2025. Our Company has made the necessary application to the Stock Exchange to obtain trading approval for Rights Entitlement as required under SEBI ICDR Master Circular.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the disclaimer clause of BSE Limited under the heading "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of BSE" on page 70 of the Letter of Offer.

AVAILABILITY OF ISSUE MATERIALS: The credit of Rights Entitlement does not constitute an offer, invitation to offer or solicitation for participation in the Issue, whether directly or indirectly, and only dispatch of the Issue Material shall constitute an offer, invitation or solicitation for participation in the Issue in accordance with the terms of the Issue Material. Further, receipt of the Issue Materials (including by way of electronic means) will not constitute an offer, invitation to offer, invitation to or solicitation by anyone in (i) the United States or (ii) any jurisdiction or in any circumstances in which such an offer, invitation or solicitation is unlawful or not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such an offer, invitation or solicitation. In those circumstances, the Letter of Offer and any other Issue Materials must be treated as sent for information only and should not be acted upon for subscription to Rights Equity Shares and should not be copied or re-distributed, in part or in full. Accordingly, persons receiving a copy of the Issue Materials should not distribute or send the Issue Materials in or into any jurisdiction where to do so, would or might contravene local securities laws or regulations, or would subject our Company or its affiliates to any filing or registration requirement (other than in India). If Issue Material is received by any person in any such jurisdiction or the United States, they must not seek to subscribe to the Rights Equity Shares. For more details, please see "Restrictions on Purchases and Resales" beginning on page106 of the Letter of Offer.

The Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue Material will be sent/dispached only to the Eligible Equity Shareholders who have provided an Indian address to our Company. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address. The Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue Material will be sent only to the valid email address and in case such Eligible Equity Shareholders have not provided a valid e-mail address, then the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue Material will be physically dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them. Further, the Letter of Offer will be sent/dispached to the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian addresses and who have made a request in this regard.

Investors can access the Draft Letter of Offer, the Letter of Offer, and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholders are eligible to subscribe to the Rights Equity Shares under applicable laws) on the websites of:

- (i) our Company at www.covidhtechnologies.com;
- (ii) the Registrar at www.skylinertta.com
- (iii) the Stock Exchange at www.bseindia.com.

To update the respective Indian addresses/e-mail addresses/phone or mobile numbers in the records maintained by the Registrar or by our Company, Eligible Equity Shareholders should visit www.skylinertta.com. Eligible Equity Shareholders can also obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar (i.e. www.skylinertta.com) by entering their DP ID and Client ID or folio number (for Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date) and PAN. The link for the same shall also be available on the website of our Company at www.covidhtechnologies.com. Further, our Company will undertake all adequate steps to reach out to the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian address through other means, as may be feasible.

For risk factors and other details, please refer to the Letter of Offer.

If you have queries or grievances in connection with the Rights Issue, you may contact the Registrar to the Issue at the details given below, with a copy to the Company Secretary and Compliance Officer at cscovidh@gmail.com.

REGISTRAR TO THE ISSUE	
	Skyline Financial Services Private Limited D-153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 Tel: 011-40450193-197 E-mail: ipo@skylinertta.com Website: www.skylinertta.com Contact Person: Mr. Anuj Rana SEBI Reg No: INR000003241

All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy of the SCSB, giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), Email address of the sole/first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Forms or the plain paper application, as the case may be was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip.

For Covidh Technologies Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Deepakshi
Company Secretary & Compliance Officer

[illegible]